

सलघट में 100 क्विंटल नकली खाद जब्त, मामला दर्ज

Publish Date: | Sun, 30 Jun 2019 06:31 AM (IST)

29-बीजीटी-15-बालाघाट। कृषि विभाग द्वारा जब्त की गई नकली खाद।

बालाघाट। नईदुनिया प्रतिनिधि।

जिले के नकली खाद व बीज बेचने वालों पर कृषि विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में परसवाड़ा व बैहर तहसील में नकली डीएपी खाद बेचने का मामला सामने आने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर दोषी व्यक्तियों व एजेंसी के विरुद्ध परसवाड़ा व बैहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के अमले ने ग्राम सलघट में 100 क्विंटल नकली डीएपी खाद भी जब्त की हैं।

निरीक्षण में यहां मिली नकली खाद

उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी ने बताया कि परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम कनई, खर्वा, नाटा, पंडाटोला में कृषि विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात पवन फर्टिलाइजर कंपनी, जिला आनंद गुजरात द्वारा निर्मित आर्गेनिक प्रोम उर्वरक किसानों को बेचने करते हुए पाया गया। किसानों को इस उर्वरक को डीएपी का सबस्टिट्यूट बताया जा रहा था। यह नकली उर्वरक शानू पटेल एगो एजेंसी भिकेवाड़ा के संचालक शानू पटले पिता दिमागचंद पटले द्वारा परमेन्द्र गौतम निवासी भोपाल व प्रदान समूह की करुणा हनवत पति रामलाल हनवत ग्राम लोटमारा के माध्यम से ग्राम कनई, खर्वा, नाटा व पंडाटोला के किसानों को बेचने किया जा रहा था। जिस पर नकली उर्वरक को जब्त कर थाना प्रभारी परसवाड़ा के सुपुर्द कर नकली उर्वरक बेचने करने वाले लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई सहायक संचालक विनय धुर्वे, नायब तहसीलदार कैलाश कनौजे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेघदूत परते, कृषि विकास अधिकारी सुनील बागड़े व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अजीत धुर्वे द्वारा की गई है।

इनके खिलाफ भी हुई कार्रवाई

उप संचालक ने बताया कि बैहर तहसील के ग्राम सलघट के कृषक सुमेर सिंह के यहां से नकली डीएपी 100 क्विंटल, 200 बोरी, कृषि विकास अधिकारी प्रीति पेन्द्राम द्वारा जब्त की गई है और बैहर थाने में नकली उर्वरक बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि वे बगैर लाइसेंस के उर्वरक को न बेचें। नकली उर्वरक बेचने कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते पाए जाने पर सीधे उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Posted By: **Nai Dunia News Network**

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/balaghat-bgt-news-3024113>